



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 1978/पौष 30, 1899

No. 14]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 1978/PAUSA 30, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

केवल यू.के./भारत अनुक्षण अनुदान, 1977 के लिए ही जारी किए जायेंगे।

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 6-आई टी सी/पी एन/78

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1978

विषय :—स्वतन्त्र लाइसेंस योजना के अंतर्गत विस्क्रॉस स्टेपल फाइबर का आयात : अप्रैल 1977—मार्च 1978 के लिए आयात नीति।

सं. आई. पी. सी./3/6/77.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 84-आई टी पी सी/पी एन/77 दिनांक 6 अक्टूबर, 1977 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें पात्र आयातकों को यह सलाह दी गई थी कि वे स्वीकृत फलतः पुंजा के छोड़कर अप्रैल 1977—मार्च 1978 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा-1) के परिशिष्ट 2 में उल्लिखित मदों के आयात के संभाव्य स्रोत या स्रोतों का संकेत करें जिससे कि लाइसेंस प्राधिकारी यदि उपलब्ध हो तो संबंध क्रेडिट के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान कर सकें।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि अप्रैल 1977—मार्च 1978 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा-1) के परिशिष्ट 2 में क्रम सं. 3 के अंतर्गत आने वाले विस्क्रॉस स्टेपल फाइबर के आयात के लिए सभी लाइसेंस

3. विस्क्रॉस स्टेपल फाइबर के आयात के लिए पहले से ही जारी किए गए आयात लाइसेंसों के संबंध में जिनके लिए इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख के या इससे पूर्व अपरिवर्तनीय साख पत्र नहीं खोले गए हैं किन्तु आयात लाइसेंस अन्यथा रूप से आयात के लिए बंध हैं तो लाइसेंसधारी केवल यू.के./भारत अनुक्षण अनुदान, 1977 के अंतर्गत आयातों के लिए लाइसेंस का बंध बनाने हेतु, आयात लाइसेंस में उपयुक्त पृथक्करण के लिए संबंध लाइसेंस प्राधिकारियों में सम्पर्क स्थापित करेंगे।

4. उन मामलों में जहां विस्क्रॉस स्टेपल फाइबर के लिए पहले से ही आवेदन पत्र भेज दिए गए हैं चाहे उनमें आयात के स्रोत का संकेत किया है या नहीं तो भी आयात लाइसेंस केवल यू.के./भारत अनुक्षण अनुदान, 1977 के अंतर्गत ही प्रदान किए जाएंगे।

5. यू.के./भारत अनुक्षण अनुदान के अंतर्गत विस्क्रॉस स्टेपल फाइबर के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंस अधिसूचित शर्तों द्वारा शासित होंगे, वहाँ वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 44-आई टी सी/पी एन/77 दिनांक 7 जुलाई 1977।

का. वें. शेषाद्वि, मुख्य नियंत्रक,  
आयात-निर्यात

## MINISTRY OF COMMERCE

## IMPORT TRADE CONTROL

## Public Notice No. 6-ITC(PN)/78

New Delhi, the 20th January, 1978

SUBJECT: Import of Viscose staple fibre under free licensing scheme : Import Policy for April 1977—March 1978.

No. IPC/3/6/77.—Attention is invited to the Ministry of Commerce, Public Notice No. 84-ITC(PN)/77, dated the 6th October, 1977, wherein eligible importers were advised to indicate the likely source or sources of import of the items mentioned in Appendix 2 of the Import Trade Control Policy Book (Volume I) for April 1977—March 1978, except for permissible spare parts, to enable the licensing authorities to grant licences under the respective relevant credit, if available.

2. On a review of the situation, it has been decided that all licences for the import of viscose staple fibre covered by S. No. 3 in Appendix 2 of the Import Trade Control

Policy Book (Volume I) for April 1977—March 1978, shall be issued against the UK/India Maintenance Grant, 1977, only.

3. In respect of import licences already issued for import of viscose staple fibre against which irrevocable letters of credit have not been opened, on or before the date of issue of this Public Notice, but the import licences are otherwise valid for import, the licensees shall approach the licensing authorities concerned, for suitable amendment to the import licence, to make the licence valid for imports under the UK/India Maintenance Grant, 1977 only.

4. In case where applications have already been made for viscose staple fibre, whether or not indicating the source of import, import licences shall be granted only under UK/India Maintenance Grant, 1977.

5. All licences issued for viscose staple fibre under UK/India Maintenance Grant will be governed by the conditions notified vide Ministry of Commerce, Public Notice No. 44-ITC(PN)/77 dated the 7th July, 1977.

K. V. SESHADRI, Chief Controller,

Imports & Exports